



ब्रैम्पटन सिटी हॉल में 16 से 19 फरवरी तक, केवल मुलाकात बुक करके आने का समय बढ़ा दिया गया है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (11 फरवरी, 2021) – सिटी ने निवासियों और कारोबारियों के लिए, उनके प्रॉपर्टी टैक्सों का भुगतान करने के लिए, सिटी हॉल (City Hall) में निम्नलिखित तारीखों को इसका समय बढ़ा दिया है:

- मंगलवार, 16 फरवरी, सुबह 8:30 बजे से शाम 6 बजे तक
- बुधवार, 17 फरवरी, सुबह 8:30 बजे से शाम 6 बजे तक
- वीरवार, 18 फरवरी, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक
- शुक्रवार, 19 फरवरी, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक

सिटी हॉल में प्रॉपर्टी टैक्सों का भुगतान करने के लिए, निवासियों के लिए पहले से ही, [सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की वेबसाइट \(City of Brampton website\)](#) पर मुलाकात बुक करना आवश्यक है। नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रॉपर्टी टैक्स की नियत तारीखें [यहां \(here\)](#) देखी जा सकती हैं।

निवासियों को याद दिलाया जाता है कि इस समय, सिटी कार्पोरेट फैसिलिटीज में जाने से पहले मुलाकात बुक करना जरूरी है। व्यक्तिगत तौर पर केवल कुछ सेवाएं ही उपलब्ध हैं।

स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, निवासियों से अनुरोध है कि जब संभव हो, वे ऑनलाइन या अन्य विकल्पों के द्वारा सेवाओं तक पहुंचें। प्रॉपर्टी टैक्सों का भुगतान करने के कई वैकल्पिक सुरक्षित व सुविधाजनक तरीके हैं:

- प्री-अथॉराइज्ड टैक्स भुगतान प्लान
- बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान में
- वित्तीय संस्थानों द्वारा इंटरनेट/टेलिफोन बैंकिंग
- सिटी हॉल में ड्रॉप बॉक्स में चेक जमा करना

मुलाकातों की बुकिंग या प्रॉपर्टी टैक्स भुगतानों संबंधी सवालों के लिए, कृपया 24/7 मदद तक पहुंच के लिए 311 पर फोन करें और 311@brampton.ca पर ईमेल करें।



मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca